

1. Section 66(E) of IT Act deals with
 (A) Punishment for violation of Privacy
 (B) Phishing
 (C) Cyber stalking
 (D) Spamming

2. Find the number of straight lines in this figure.



- (A) 10 (B) 15
 (C) 13 (D) 12



There are two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 18, while the sum of thrice the first and twice the second is 17. The larger of the two is
 (A) 12 (B) 4
 (C) 6 (D) 8

AGP Stands for

- (A) Accelerated Graphic Pen
 (B) Advanced Graphics Pen
 (C) Accelerated Graphic Port
 (D) Advanced Graphics Port

4. When did Treaty of Versailles was signed?
 (A) 1918 (B) 1935
 (C) 1920 (D) 1919

5. If the radius of the base of a right circular cylinder is halved, keeping the height same, what is the ratio of the volume of the reduced cylinder to that of the original one?

- (A) 1 : 4 (B) 8 : 1
 (C) 1 : 2 (D) 1 : 8

6. 'SVEEP' stands for
 (A) Systematic Voters Enrolment and Electoral Participation
 (B) Systematic Voters Education and Electoral Participation
 (C) Systematic Voters Engage and Electoral Participation
 (D) Systematic Voters Enrolment and Education Programme

1. आई.टी. अधिनियम की धारा 66 (ई) किससे संबंधित है ?
 (A) गोपनीयता के उल्लंघन के लिए सजा
 (B) फ़िशिंग
 (C) साइबर स्टाकिंग ✓
 (D) स्पैमिंग

2. इस चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें।



- (A) 10 (B) 15
 (C) 13 (D) 12

3. ऐसी दो संख्याएँ हैं कि पहली के दोगुने और दूसरी के तीन गुने का योग 18 है, जबकि पहले के तीन गुने और दूसरे के दोगुने का योग 17 है। दोनों में से बड़ी संख्या है
 (A) 12 (B) 4
 (C) 6 (D) 8

4. AGP का मतलब है

- (A) एक्सिलरेटेड ग्राफिक पेन
 (B) एडवान्सड ग्राफिक्स पेन
 (C) एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट
 (D) एडवान्सड ग्राफिक्स पोर्ट ✓



5. वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए ?
 (A) 1918 ✓ (B) 1935
 (C) 1920 (D) 1919

6. यदि एक लम्बवृत्तीय बेलन के ऊँचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा ?

- (A) 1 : 4 (B) 8 : 1
 (C) 1 : 2 (D) 1 : 8

7. 'SVEEP' का मतलब है

- (A) सिस्टेमैटिक वोटर्स एन्रोलमेंट एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन
 (B) सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन
 (C) सिस्टेमैटिक वोटर्स एंगेज एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन
 (D) सिस्टेमैटिक वोटर्स एन्रोलमेंट एंड एजुकेशन प्रोग्राम



8. In this question, two statements are given followed by two conclusions. Choose the conclusion(s) which best fit(s) logically.

Statements :

1. Some apples are banana.
2. All bananas are fruits.

Conclusions :

- I. Some fruits are apple.
- II. Some bananas are fruits.

- (A) Only Conclusion II follows
 (B) Both Conclusions I and II follow
 (C) Neither Conclusion I nor II follows
 (D) Only Conclusion I follows

9. If the word PATCH is written as QBUDI whereas BATCH is written as

- | | |
|-----------|------------|
| (A) CBUDI | (B) ACDFH |
| (C) BCEGH | (D) CEGIKH |

10. Consider the following statements about minimum education qualification to contest election of Lok Sabha and Vidhana Sabha.

- I. There is no educational qualification for candidates for being an MP or an MLA.
- II. Putting an educational qualification will deprive a majority of the citizens right to contest election in India.

Choose the right option given below :

- (A) The statement I is correct
 (B) Both the statements I and II are incorrect
 (C) Both the statements I and II are correct
 (D) The statement II is correct

11. In ancient times the term *Urvava* was used to indicate

- | | |
|------------------|------------------|
| (A) Fertile soil | (B) Sanay Soil |
| (C) Waste soil | (D) Sterile soil |

12. If $(x - 1)$ is the H.C.F. of $(x^2 - 1)$ and $px^2 - q(x + 1)$, then

- | | |
|---------------|---------------|
| (A) $p = 2q$ | (B) $2p = 3q$ |
| (C) $3p = 2q$ | (D) $q = 2p$ |

13. The flux linked with a coil at any instant t is given by $\phi = 10t^2 - 50t + 250$, then induced emf at $t = 3s$ is

- | | |
|------------|-------------|
| (A) $-10V$ | (B) $-190V$ |
| (C) $190V$ | (D) $10V$ |

8. इस प्रश्न में, दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं।

कथन :

1. कुछ सेब केला है।
2. सभी केला फल है।

निष्कर्ष :

- I. कुछ फल सेब है।
 - II. कुछ केला फल है।
- (A) केला निष्कर्ष II अनुसरण करता है।
 (B) निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं।
 (C) न तो निष्कर्ष I न ही II अनुसरण करता है।
 (D) केला निष्कर्ष I अनुसरण करता है।

9. यदि PATCH शब्द को QBUDI लिखा जाता है, तो BATCH को क्या लिखा जाएगा ?

- | | |
|-----------|------------|
| (A) CBUDI | (B) ACDFH |
| (C) BCEGH | (D) CEGIKH |

10. सोकर्मा और विभासभा का सुनाव लड़ने के लिए अनुत्तम शिक्षा योग्यता के बारे में विचारित करनों पर विचार करें।

- I. एक मासिक विधायक होने के लिए उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
- II. शैक्षणिक योग्यता रखने से भारत में सुनाव लड़ने के अधिकार से अधिकांश नागरिक बचत रह जाएंगे।

विचारित में से सही विकल्प का चयन करें :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (A) कथन I सही है। | (B) कथन I और II दोनों सही नहीं हैं। |
| (C) दोनों कथन I और II सही हैं। | (D) कथन II सही है। |

11. प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता था ?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (A) उपजाऊ मिट्ठी | (B) रेतीली मिट्ठी |
| (C) अनुपयुक्त मिट्ठी | (D) ऊसर मिट्ठी |

12. यदि $(x^2 - 1)$ और $px^2 - q(x + 1)$ का महत्तम समापवर्तक $(x - 1)$ है, तो

- | | |
|---------------|---------------|
| (A) $p = 2q$ | (B) $2p = 3q$ |
| (C) $3p = 2q$ | (D) $q = 2p$ |

13. किसी समय t पर एक कुंडली के साथ जुड़ा बहाव $\phi = 10t^2 - 50t + 250$ है, तो प्रेरित इएमफ $t = 3s$ पर है

- | | |
|------------|-------------|
| (A) $-10V$ | (B) $-190V$ |
| (C) $190V$ | (D) $10V$ |



14. Mohan bought a watch with 25% discount on the selling price. If the watch cost him Rs. 1,545, what is the original selling price of the watch ?
 (A) Cannot be determined
 (B) Rs. 2,050
 (C) Rs. 2,040
 (D) None of these
15. Amnesty International is an Institution which promotes
 (A) Fundamental Rights of the citizens
 (B) It promotes peace in the world
 (C) Fights against inequality in the society
 (D) Human Rights all over the world
16. Which number will come in the place of question mark ?
 5, 6, 15, 50, 207, ?
 (A) 1000 (B) 1544
 (C) 1050 (D) 1044
17. _____ are used for connecting communication devices like mouse and modem.
 (A) Serial ports
 (B) Integrated Digital Electronics (IDE) ports
 (C) Universal Serial Bus (USB) ports
 (D) Parallel ports
18. In an exam conducted for 38 students of class XII 15 passed in Biology and 25 passed in Chemistry. If at least 1 student failed in both the subjects, find the maximum number of students who passed in only Biology.
 (A) 5 (B) 15
 (C) 12 (D) 10
19. From a point P, Samir started walking towards South and walked 40 m. He then turned towards his left and walked 30 m and reached a point Q. The point Q is at what minimum distance and at what direction from the point P ?
 (A) 50 m South West (B) 35 m South East
 (C) 50 m South East (D) 45 m South East
20. A region with a large number of deep gullies or ravines is called a
 (A) Valley topography
 (B) Badland topography
 (C) Boredened topography
 (D) Coastal topography
14. मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। यदि उसे घड़ी की कीमत रु. 1,545 चुकानी पड़ी, तो घड़ी का मूल विक्रय मूल्य क्या है ?
 (A) निर्धारित नहीं किया जा सकता
 (B) रु. 2,050
 (C) रु. 2,040
 (D) इनमें से कोई नहीं
15. एमेनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो _____ को बढ़ावा देती है।
 (A) नागरिकों के मौलिक अधिकार
 (B) यह दुनिया में शांति को बढ़ावा देता है
 (C) समाज में असमानता के खिलाफ़ लड़ता है
 (D) पूरी दुनिया में मानवाधिकार
16. प्रश्न चिह्न के स्थान पर कौन-सी संख्या आयेगी ?
 5, 6, 15, 50, 207, ?
 (A) 1000 (B) 1544
 (C) 1050 (D) 1044
17. माउस और मोडेम जैसी संप्रेषण युक्तियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है।
 (A) क्रियिक पोर्ट
 (B) इंटिग्रेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स (IDE) पोर्ट
 (C) युनिवर्सल सीरियल बस (USB) पोर्ट
 (D) समांतर पोर्ट
18. कक्षा XII के 38 छात्रों के लिए आयोजित एक परीक्षा में, 15 जीवविज्ञान में पास हैं और 25 रसायनशास्त्र में पास हैं। यदि 1 छात्र दोनों विषयों में फेल है, तो केवल जीवविज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें।
 (A) 5 (B) 15
 (C) 12 (D) 10
19. एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना आंध्र करता है और 40 मी. चलता है। फिर वह बाएँ मुड़कर 30 मी. चलता है और एक बिंदु Q तक पहुंचता है। बिंदु Q, बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी पर है और बिंदु P से किस दिशा में है ?
 (A) 50 मी. दक्षिण पश्चिम (B) 35 मी. दक्षिण पूर्व
 (C) 50 मी. दक्षिण पूर्व (D) 45 मी. दक्षिण पूर्व
20. घड़ी संख्या में गहरी नालियों या घाटियों (खड़) वाले हेतु को क्या कहा जाता है ?
 (A) पाटी स्थलाकृति
 (B) बैडलैन्ड स्थलाकृति
 (C) बोर्डेनड स्थलाकृति
 (D) समुद्र तटीय स्थलाकृति

21. Kantilal mixes 80 kg of sugar worth of Rs. 6.75 per kg with 120 kg worth of Rs. 8 per kg. At what rate shall he sell the mixture to gain 20% ?
 (A) Rs. 7.50 (B) Rs. 8.85
 (C) Rs. 8.20 (D) Rs. 9
22. A person making false documents with the intention of causing damage or injury to the public or any person is called
 (A) Cheating (B) Fraud
 (C) Forgery (D) None of these
23. Who is the current Cabinet Secretary of India ?
 (A) Rajiv Gauba (B) Ajit Seth
 (C) P. K. Sinha (D) None of the above
24. In Young's double slit experiment, the distance between the two slits is 0.1 mm and wavelength of light used is 4×10^{-7} m. If the width of fringe on screen is 4 mm, the distance between screen and slits is
 (A) 0.1 mm (B) 1 m
 (C) 0.1 cm (D) 1 cm
25. The value of $\frac{(0.0347)^3 + (0.9653)^3}{(0.0347)^2 - 0.0347 \times 0.9653 + (0.9653)^2}$ is
 (A) 0 (B) 30
 (C) 10 (D) 1
26. _____, popularly known as all-in-one printer, is a device that consolidates the capabilities of multiple devices in one machine.
 (A) Laser printer (B) Inkjet printer
 (C) Hydra printer (D) Drum printer
27. Read the data given below and based on it answer the following question :
 A, B, C, D, E, F and G are 7 houses in a road which are facing east. C is sitting to the right of D. B is one of the corners and E is his neighbour. G is in between E and F and D is third from south end.
 D is a neighbour of which of the following pairs ?
 (A) CE (B) GB
 (C) AC (D) FC
21. कांतिलाल रु. 6.75 प्रति किग्रा वाले 80 किग्रा चीनी को रु. 8 प्रति किग्रा वाले 120 किग्रा चीनी के साथ मिलाता है। वह मिश्रण को किस दर पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो ?
 (A) रु. 7.50 (B) रु. 8.85
 (C) रु. 8.20 (D) रु. 9
22. जब कोई व्यक्ति जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से झुठे दस्तावेज बनाता है, उसे कहते हैं
 (A) घोखाधड़ी (B) घोखा
 (C) जालसाजी (D) इनमें से कोई नहीं
23. भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है ?
 (A) राजीव गौवा (B) अजीत सेठ
 (C) पी. के. सिन्हा (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
24. यंग के द्वि दरार प्रयोग में, दो दरारों के बीच 0.1 mm दूरी है और प्रयुक्त प्रकाश की तारंगदैर्घ्य 4×10^{-7} m है। यदि पटल में सीमांत (फ्रिन्ज) की चौड़ाई 4 mm है, तो पटल और दरार के बीच दूरी है
 (A) 0.1 mm (B) 1 m
 (C) 0.1 cm (D) 1 cm
25.
$$\frac{(0.0347)^3 + (0.9653)^3}{(0.0347)^2 - 0.0347 \times 0.9653 + (0.9653)^2}$$
 का मान है
 (A) 0 (B) 30
 (C) 10 (D) 1
26. _____ प्रिंटर जो लोकप्रिय रूप से समग्र एक में (ऑल-इन-वन प्रिंटर) के नाम से जाने जाते हैं एक युक्ति है जो कई युक्तियों की क्षमताओं को एक मशीन में समेकित करता है।
 (A) लेजर प्रिंटर (B) इंकजेट प्रिंटर
 (C) हाइड्रा प्रिंटर (D) ड्रम प्रिंटर
27. दिए गए डाटा का अध्ययन करें और उस पर आधारित निम्न प्रश्न के उत्तर दें :
 एक सड़क पर A, B, C, D, E, F और G सात घर हैं जिसका दरवाजा पूर्व की ओर है। C, D के दाहिने हैं, B एक किनारे पर है और E उसका पड़ोसी है। G, E और F के बीच में हैं। D दक्षिण की ओर से तीसरा है। D निम्न में से कौन-से जोड़े का पड़ोसी है ?
 (A) CE (B) GB
 (C) AC (D) FC

A C D E B
 B F G E D C

' \times Q means P is the sister of Q ; P + Q means P is the father of Q ; P - Q means P is the mother of Q. Which of the following means is the aunt of T ?

- (A) T \times M + S (B) S + T \times M
 (C) S \times M + T (D) S \times M + R - T

_____ hold the information that the CPU currently working on.

- (A) Control Unit (B) Input Unit
 (C) Output Unit (D) Registers

United Nations was established in the year

- (A) 1965 (B) 1945
 (C) 1942 (D) None of the above

Chronic liver damage is called

- (A) Cirrhosis (B) Lambosis
 (C) Poikalosis (D) Lardosis

A man rides at the rate of 18 km/hr, but stops for 6 mins to change horses at the end every 7th km. The time that he will take to cover a distance of 90 km is

- (A) 6 hrs 18 min. (B) 6 hrs 12 min.
 (C) 6 hrs (D) 6 hrs 24 min.

Haryana the First Krishi Vigyan Kendra was established in

- (A) 1970 (B) 1983
 (C) 1980 (D) 1976

I. 120 men had provisions for 200 days. After 5 days, 30 men died due to an epidemic. The remaining food will now last for

- (A) 150 days (B) 260 days
 (C) 245 days (D) $146\frac{1}{4}$ days

Leaders who were behind the establishment of UNO are

- (A) Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, Winston Churchill
 (B) Woodrow Wilson, Winston Churchill, Joseph Stalin
 (C) Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Nehru
 (D) Franklin D. Roosevelt, Lenin, Winston Churchill

How much angle does a minute hand cover in 20 minutes ?

- (A) 120° (B) 60°
 (C) 80° (D) 180°

28. P \times Q का अर्थ है P, Q की बहन है; P + Q का अर्थ है P, Q के पिता है; P - Q का अर्थ है P, Q की माता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि S, T की बुआ है ?

- (A) T \times M + S (B) S + T \times M
 (C) S \times M + T (D) S \times M + R - T

29. _____ उस सूचना को धारण करता है जिस पर सीधीय कार्य कर रहा हो ।

- (A) नियंत्रण इकाई (B) आगत इकाई
 (C) निर्गत इकाई (D) रजिस्टर

30. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी ?

- (A) 1965 (B) 1945
 (C) 1942 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

31. दीर्घावधिक यकृत हानि _____ कहलाती है ।

- (A) सिरोसिस (B) लैम्बोसिस
 (C) पोइकलोसिस (D) लाडोसिस

32. एक आदमी 18 किमी/घंटे की दर से सवारी करता है, लेकिन हर 7 किमी के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुक जाता है। 90 किमी की दूरी तय करने में ज्ञाने वाला समय है

- (A) 6 घंटे 18 मिनट (B) 6 घंटे 12 मिनट
 (C) 6 घंटे (D) 6 घंटे 24 मिनट

33. हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केन्द्र कब स्थापित की गई ?

- (A) 1978 (B) 1983
 (C) 1980 (D) 1976

34. 120 पुरुषों के लिए 200 दिनों का प्रावधान था। 5 दिनों के बाद, महामारी के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा ?

- (A) 150 days (B) 260 days
 (C) 245 days (D) $146\frac{1}{4}$ days

35. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का हाथ था ?

- (A) फ्रांसिस डी. रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, विन्स्टन चर्चिल
 (B) ब्रूडो विल्सन, विन्स्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन
 (C) फ्रांकलिन डी. रूजवेल्ट, विन्स्टन चर्चिल, नेहरू
 (D) फ्रांकलिन डी. रूजवेल्ट, लेनिन, विन्स्टन चर्चिल

36. एक मिनट बाली से 20 मिनट में कितना कोण बनाती है ?

- (A) 120° (B) 60°
 (C) 80° (D) 180°

17. In case of an ore containing ZnS and PbS, the depressant used is
 (A) ZnCN (B) NaSCN
 (C) NaCN (D) PbSCN
18. Vision 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region) is related to
 (A) Indo-Pacific (B) Indo-Bangla
 (C) India-Caribbean (D) Indo-China
19. Where did Napoleon Bonaparte die ?
 (A) St. Helena (B) Nile
 (C) Corsica (D) St. Elba
20. A train 270 meter long is running at a speed of 36 km per hour, then it will cross a bridge of length 180 metres in
 (A) 50 sec. (B) 45 sec.
 (C) 40 sec. (D) 35 sec.
21. Which of the following pyramid is always upright ?
 (A) Energy (B) Biomass of aquatic ecosystem
 (C) Number (D) Biomass
22. _____ also known as the system board, is a large multilayered printed circuit board inside a computer.
 (A) Motherboard (B) Basic Input/Output Systems (BIOS)
 (C) Control Unit (D) None of the above
23. Teacher : Education :: Mason :
 (A) Shoes (B) Film
 (C) Book (D) Wall
24. Carbohydrate, protein and fat metabolism in the body is regulated by the hormone
 (A) Adrenaline (B) FSH
 (C) Thyroxin (D) Oxytocin
25. The state of World Population Report is an annual report published by
 (A) International Labour Organization (ILO)
 (B) World Health Organization (WHO)
 (C) United Nations Population Fund (UNFPA)
 (D) None of the above
37. ZnS और PbS वाले एक अयस्क में, प्रयुक्त अवसादक है
 (A) ZnCN (B) NaSCN
 (C) NaCN (D) PbSCN
38. दृष्टि 'SAGAR' (धोत्र में सब के लिए सुरक्षा और वृद्धि) से संबंधित है।
 (A) भारत-प्रशांत (B) भारत-बांग्ला
 (C) भारत-कैरीबियन (D) भारत-चीन
39. नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ पर हुई ?
 (A) सैट हेलेना (B) नील
 (C) कोर्सिका (D) सैट एल्बा
40. 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबाई के एक पुल को कितने समय में पार करेगी ?
 (A) 50 सेकंड (B) 45 सेकंड
 (C) 40 सेकंड (D) 35 सेकंड
41. निम्नलिखित में से कौन-सा पिरामिड सैद्धांत होगा ?
 (A) ऊर्जा (B) जलीय परिस्थितिकी प्रणाली का जैवभार
 (C) संख्या (D) जैवभार
42. _____ को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, यह एक कंप्यूटर के भीतर एक बड़ा कई परतों वाला मुद्रित परिपथ बोर्ड है।
 (A) मदरबोर्ड (B) बैसिक इनपुट/आउटपुट सिस्टम (BIOS)
 (C) नियंत्रण इकाई (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
43. शिक्षक : शिक्षा : : राजगीर : ?
 (A) जूते (B) फिल्म
 (C) पुस्तक (D) दीवार
44. शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय हॉमोन द्वारा नियमित होता है।
 (A) ऐड्रिनलिन (B) FSH
 (C) थायमोक्रिन (D) ऑक्सिटोसिन
45. विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है ?
 (A) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
 (B) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
 (C) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोर्स (यूएनएफपीए)
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

46. Net National Product (NNP) = Gross National Product (GNP) - _____.
 (A) Investment (B) Deduction
 (C) Depreciation (D) None of the above
47. Consider the following statements about Reserve Bank of India (RBI).
 I. It is the Central Bank of India which controls the monetary policy of the country.
 II. It supervises the activities of both the formal and informal sectors and keep the track of their activities.
- Choose the right option given below :
 (A) The statement I is correct
 (B) Both the statements I and II are incorrect
 (C) Both the statements I and II are correct
 (D) The statement II is correct

- I. The purposeful, organized groups that strive to work toward a common social goal are
 (A) Flash movements
 (B) Conventional movements
 (C) Political movements
 (D) Social movements

- Which of the following is not a impact printer ?
 (A) dot matrix printer (B) laser printer
 (C) drum printer (D) daisy wheel printer

Complete the series :

- 7, 26, 63, 124, 215, 342, ?
 (A) 481 (B) 421
 (C) 391 (D) 511

- Litmus solution is a _____ dye.
 (A) Orange (B) Lilac
 (C) Purple (D) Yellow

Which of the following Acts provides the Statutory Status to functioning of Reserve Bank of India ?

- (A) The Reserve Bank of India Act, 1954 (II of 1954)
 (B) The Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934)
 (C) The Reserve Bank of India Act, 1944 (II of 1944)
 (D) None of the above

46. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एन.एन.पी.) = कुल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) - _____.
 (A) निवेश (B) कटौती
 (C) मूल्यहास (D) उस्त में से कोई नहीं
47. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
 I. यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है।
 II. यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है।
- निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें :
 (A) कथन। सही है
 (B) कथन। और ॥ दोनों सही नहीं हैं
 (C) दोनों कथन। और ॥ सही है
 (D) कथन ॥ सही है
48. उद्देशपूर्ण, संगठित समूह जो एक सामान्य सामाजिक लक्ष्य की दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं वे हैं
 (A) फ्लैग आंदोलन
 (B) पार्सारिक आंदोलन
 (C) राजनीतिक आंदोलन
 (D) सामाजिक आंदोलन
49. निम्नलिखित में से कौन-सा एक इमप्रेक्ट प्रिंटर नहीं है ?
 (A) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर (B) लेजर प्रिंटर
 (C) इम प्रिंटर (D) डेजी क्वीट प्रिंटर
50. शृंखला पूर्ण करें :
 7, 26, 63, 124, 215, 342, ?
 (A) 481 (B) 421
 (C) 391 (D) 511
51. लिटमस विलयन एक _____ रंग है।
 (A) नारंगी (B) नीलक
 (C) बैंगनी (D) पीला
52. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कामकाज को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है ?
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1954 (1954 का ॥)
 (B) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का ॥)
 (C) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1944 (1944 का ॥)
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

53. Section 82 of Indian Penal Code provides that nothing is an offence which is done by a child under _____ years of age.
 (A) 15 (B) 7
 (C) 12 (D) 9

54. _____ is provided by the Internet Service Provider (ISP) to instruct the modem to dial the telephone number and to identify the user's machine to the access provider's system for access to the network.
 (A) Dialler software
 (B) TCP/IP
 (C) Browser
 (D) None of the above

55. Inflation in an economy may arise from the overall increase in the cost of production. It is called
 (A) Cost-push inflation
 (B) Deficit-induced inflation
 (C) Demand-pull inflation
 (D) No inflation

56. Aruna ranks twelfth in a class of forty-six. What will be her rank from the last ?
 (A) 37th (B) 34th
 (C) 35th (D) 33rd

57. Who was called as the Father of Anatomy ?
 (A) Aristotle (B) Ptolemy
 (C) Herophilus (D) Hippocrates

58. What is the number of pieces into which a cube can be cut by three cuts in one direction, six cuts in the second direction and seven cuts in the third direction ?
 (A) 126 (B) 278
 (C) 312 (D) 224

59. Find out the incorrect matching related to Atomic Power Stations and the States in which they located.

(A) Narora	-	Uttar Pradesh
(B) Kalpakkam	-	Andhra Pradesh
(C) Kaiga	-	Karnataka
(D) Kakrapara	-	Gujarat

60. Permanent Court of Arbitration (PCA) Headquarter is located in
 (A) Baku (B) Hague
 (C) New York (D) Karachi

53. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 के अनुसार कुछ भी अपराध नहीं है, जो _____ वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया जाए।
 (A) 15 (B) 7
 (C) 12 (D) 9

54. _____ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) द्वारा मॉडेम को टेलिफोन नंबर द्वायल करने और नेटवर्क तक पहुँचने के लिए पहुँच प्रदाता के सिस्टम तक प्रयोक्ता की मशीन को पहचानने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
 (A) डायलर सॉफ्टवेयर
 (B) TCP/IP
 (C) ब्राउज़र
 (D) उम्र में से कोई नहीं

55. एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि से उपजती है। यह _____ कहलाता है।
 (A) लागत-जनित मुद्रास्फीति
 (B) घाटा-प्रेरित मुद्रास्फीति
 (C) मांग-जनित मुद्रास्फीति
 (D) स्फीति नहीं

56. छियालीस की एक कक्षा में अरुणा का स्थान बारहवां है। उसका नीर्चे से कौन-सा स्थान होगा ?
 (A) 37th (B) 34th
 (C) 35th (D) 33rd

57. शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ?
 (A) अरिस्टोटल (B) टॉलेमी
 (C) हेरोफिलस (D) हिपोक्रेटस





58. एक दिशा में तीन काट, दसरी दिशा में छः काट और तीसरी दिशा में सात काट लेंगाते हुए एक घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है ?





(A) 126 (B) 278
 (C) 312 (D) 224

59. परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और उन राज्यों से संबंधित गलत मिलान का पता लगाएं जिनमें वे स्थित हैं।

(A) नरोरा	-	उत्तर प्रदेश
(B) कल्पकम	-	आंध्र प्रदेश
(C) कैगा	-	कर्नाटक
(D) काकरापारा	-	गुजरात

60. पर्मनेट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) का मुख्यालय में स्थित है।
 (A) बाकू (B) हेग
 (C) न्यूयॉर्क (D) कराची

61. It refers to formal guidelines to conduct sociological research—consisting of principles and ethical standards to be used in the discipline
- Participant ethics
 - Code of ethics
 - Code of behaviour
 - Code of conduct
62. Which number will come in the place of question mark ?
- | | | |
|-----|-----|---|
| 216 | 343 | ? |
| 2 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 3 |
- 125
 - 218
 - 112
 - 228
3. Homo sapiens belongs to the family
- Hissidae
 - Hominidae
 - Holinidae
 - None of the above
4. Presently Haryana Railway Police is Headed by
- A. S. Chawla
 - Surinder Singh Bhoria
 - Satender Kumar Gupta
 - Rajinder Kumar
5. From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.
- 
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
6. The Bretton Woods Conference held in the year
- 1945
 - 1991
 - 1944
 - 1956
7. Who has the longest tenure as Governor of Reserve Bank of India ?
- I. G. Patel
 - Sir Benegal Rama Rau
 - Manmohan Singh
 - None of the above

61. यह समाजशास्त्रीय अनुसंधान करने के लिए औपचारिक दिशा-निर्देशों को संदर्भित करता है, जिसमें अनुशासन के प्रयुक्त होनेवाले सिद्धांतों और नैतिक मानकों का समावेश होता है।
- प्रतिभागी नैतिकता
 - नैतिक संहिता
 - व्यवहार संहिता
 - आचार संहिता
62. प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आयेगी ?
- | | | |
|-----|-----|---|
| 216 | 343 | ? |
| 2 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 3 |
- 125
 - 218
 - 112
 - 228
63. होमो सेपियन्स का संबंध किस परिवार से है ?
- हिसिडे
 - होमिनिडे
 - हॉलीनिडे
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
64. वर्तमान में हरियाणा रेलवे पुलिस के प्रमुख कौन है ?
- ए. एस. चावला
 - सुरिंदर सिंह भोरिया
 - सतेंद्र कुमार गुप्ता
 - राजिंदर कुमार
65. दी गई उत्तर आकृतियों में से, वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है/समाहित है।
- 
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
66. ब्रेटन वुड्स सम्प्रेलन किस वर्ष में हुआ ?
- 1945
 - 1991
 - 1944
 - 1956
67. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसके पास था ?
- आई जी पटेल
 - सर बेनेगल रामा राउ
 - मनमोहन सिंह
 - उपरोक्त में से कोई नहीं

68. Notochord present in
 (A) Both (B) and (C) (B) Non-chordates
 (C) Chordates (D) None of these
69. If every second Saturday and all Sundays are holidays in a 30 days month beginning on Saturday, then how many working days are there in that last month ?
 (A) 20 (B) 23
 (C) 22 (D) 21
70. Which of the following is example for Lomentum (Schizocarpic fruit) ?
 (A) Mango (B) Euphorbia
 (C) Mimosa (D) Peach
71. In a photograph Shyam is to the left of Madan, Mary is to the right of George. Karim is in between Shyam and Mary. Who is at the corner ?
 (A) Shyam (B) Karim
 (C) George (D) Mary
72. Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at line AB.
-
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
73. The longest National Highway in India NH-7 connects
 (A) New Delhi – Mumbai – Bangalore
 (B) Shillong – Kanya Kumari
 (C) Kashmir – Kanya Kumari
 (D) Varanasi – Kanya Kumari
74. Which State Government is the sponsor for Indian Hockey team ?
 (A) Telangana (B) Punjab
 (C) Odisha (D) Karnataka
68. नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है
 (A) (B) और (C) दोनों (B) गैर-कॉर्ड्स
 (C) कॉर्ड्स (D) इनमें से कोई नहीं
69. शनिवार से शुरू हुए किसी 30 दिन वाले महीने का यदि प्रत्येक दूसरा शनिवार और सभी शनिवार की छुट्टी होती हो, तो पिछले महीने में कुल कितने कार्य दिवस थे ?
 (A) 20 (B) 23
 (C) 22 (D) 21
70. निम्न में से कौन-सा लोमेंटम (मिक्रोकार्पिक फल) का उदाहरण है ?
 (A) आम (B) यूफोरबिया
 (C) मिमोसा (D) आड़
71. एक तस्वीर में, श्याम मदन के बाएँ है। मेरी, जाज के दाएँ है। करीम श्याम और मेरी के बीच में है। कोने पर कौन है ?
 (A) श्याम (B) करीम
 (C) जाज (D) मेरी
72. दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिविवर चुनिए जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है।
-
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
73. भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 जोड़ता है
 (A) नई दिल्ली – मुंबई – बैंगलोर
 (B) शिलांग – कन्या कुमारी
 (C) कर्मीर – कन्या कुमारी
 (D) वाराणसी – कन्या कुमारी
74. कौन-सा राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक है ?
 (A) तेलंगाना (B) पंजाब
 (C) ओडिशा (D) कर्नाटक

75. One of the most influential modern scientists to put forth a theory about how people develop a sense of self
 (A) Erik Erikson (B) Robert K. Merton
 (C) Jean Piaget (D) Sigmund Freud
76. Choose the correct order.
 (1) Yarn (2) Silkworm (3) Saree
 (4) Silk (5) Cloth
 (A) (3), (4), (1), (2), (5)
 (B) (2), (4), (5), (1), (3)
 (C) (2), (4), (3), (5), (1)
 (D) (2), (4), (1), (5), (3)
77. In Microsoft Excel, the _____ is defined as the vertical space from top to the bottom of the window.
 (A) Row (B) Insert
 (C) Column (D) Tab
78. Apogamy is common in
 (A) Cycas (B) Tomato
 (C) Ferns (D) Gnetum
79. If in a certain code, 'OTRIVIN' is written as 'NIVROTR', then how will 'RISKING' be written in that code ?
 (A) GINPRIS (B) GNIPRIS
 (C) GNPURIS (D) GNIKRIS
80. The First Chemical Examiner's Laboratory was established in 1853 by the Government of
 (A) Delhi (B) West Bengal
 (C) Hyderabad (D) Gujarat
81. India's first Pan-India helpline for senior citizens is
 (A) Elder line, 14647
 (B) Elder line, 14567
 (C) Elder line, 14765
 (D) None of the above
82. The average age of 3 friends is 32 years. If the age of a fourth friend is added, their average age becomes 31 years. What is the age of the fourth friend ?
 (A) 24 years (B) 28 years
 (C) 32 years (D) 26 years

75. सबसे प्रभावशाली आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक ने इन बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि लोग स्वयं की भाव कैसे विकसित करते हैं
 (A) एरिक एरिक्सन (B) रॉबर्ट के. मेर्टन
 (C) जीन पियाजे (D) सिगमंड फ्रायड
76. सही क्रम चुनें।
 (1) यार्न (2) रेशमकीट (3) साड़ी
 (4) रेशम (5) कपड़ा
 (A) (3), (4), (1), (2), (5)
 (B) (2), (4), (5), (1), (3)
 (C) (2), (4), (3), (5), (1)
 (D) (2), (4), (1), (5), (3)
77. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, _____ को विंडो के शीर्ष से तल तक के उर्ध्वाधर स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
 (A) रो (B) इन्सर्ट
 (C) कॉलम (D) टैब
78. अपोगैयी किसमें सामान्य है ?
 (A) सोइक्स (B) टमाटर
 (C) फन्स (D) नेटम
79. यदि एक कूट में, 'OTRIVIN' को 'NIVROTR' लिखा जाता है, तो उसी कूट में 'RISKING' को कैसे लिखा जाएगा ?
 (A) GINPRIS (B) GNIPRIS
 (C) GNPIRIS (D) GNIKRIS
80. प्रथम रासायनिक जाँचकर्ता प्रयोगशाला 1853 में सरकार द्वारा स्थापित की गई।
 (A) दिल्ली (B) पश्चिम बंगाल
 (C) हैदराबाद (D) गुजरात
81. भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन है
 (A) एल्डर लाइन, 14647
 (B) एल्डर लाइन, 14567
 (C) एल्डर लाइन, 14765
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
82. 3 दोस्तों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि चौथे दोस्त की आयु जोड़ दी जाए, तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। चौथे दोस्त की आयु क्या है ?
 (A) 24 वर्ष (B) 28 वर्ष
 (C) 32 वर्ष (D) 26 वर्ष

_____ is a World Wide Web interface that allows users to read and write e-mails using a web browser.

- (A) Outlook express (B) E-mail
- (C) Webmail (D) None of these

Recently, the State which has come up with a "Happiness Index" department is

- (A) Kerala (B) Karnataka
- (C) Haryana (D) None of these

Aquatic mammals in polar seas have a thick layer of fat known as

- (A) Blubber (B) Fur
- (C) Rubber (D) Scrubber

Most of the economies are

- (A) Mixed economies
- (B) Communist economies
- (C) Capitalist economies
- (D) Socialist economies

____ refers to the policies undertaken by Governments (national and subnational levels) to reduce their deficits and accumulation of debt stock.

- (A) Fiscal consolidation
- (B) Fiscal debt
- (C) Repo management
- (D) Fiscal borrowing

Which one of the following is a outer planet ?

- (A) Mercury (B) Mars
- (C) Jupiter (D) Venus

____ are international discussion groups that focus on a particular topic and helps in gathering information about the topic.

- (A) File Transfer Protocol (FTP)
- (B) Newsgroup
- (C) Telnet
- (D) None of the above

UNEP announced the eradication of a pollutant from the world as Algeria – the last country to use exhausted its supplies. It is

- (A) Un-leaded petrol (B) Coal tar
- (C) Coal (D) Leaded petrol

83. _____ एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफ़ेस है, जो एक वेब ग्राउंज़र का प्रयोग करते हुए प्रयोक्ता को ई-मेल लिखने और पढ़ने देता है।

- (A) आउटलुक एमायरेस (B) ई-मेल
- (C) वेबमेल (D) इनमें से कोई नहीं

84. हाल ही में, "प्रसन्नता सूचकांक" (हैणीनेस इंडेक्स) विभाग लाने वाला राज्य है

- (A) केरल (B) कर्नाटक
- (C) हरियाणा (D) इनमें से कोई नहीं

85. पृथ्वीय सागरों में जलीय स्तनधारियों में एक वंश की मोटी पात होती है, जिसे _____ कहा जाता है।

- (A) ब्लबर (B) फर
- (C) रबड (D) स्क्लबर

86. अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं

- (A) मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ
- (B) साम्प्रदादी अर्थव्यवस्थाएँ
- (C) पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ
- (D) समाजवादी अर्थव्यवस्थाएँ

87. सरकारों (राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर) द्वारा उसके घटों और क्रणभंडार के जमाव को घटाने के लिए शुरू की गई नीतियों से संदर्भित है।

- (A) गवर्नमेंट समेकन
- (B) राजकोषीय क्रण
- (C) रेपो प्रबंधन
- (D) राजकोषीय उपायियों

88. निम्नलिखित में से कौन-सा एक बाह्य ग्रह है ?

- (A) बुध (B) मंगल
- (C) बृहस्पति (D) शुक्र

89. अंतर्राष्ट्रीय चर्चा समूह है, जो एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विषय के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं।

- (A) फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकोल (FTP)
- (B) न्यूज ग्रूप
- (C) टेलनेट
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

90. UNEP ने विश्व से एक प्रदूषक के उन्मूलन की पोषणा की है क्योंकि अल्जीरिया - इसका प्रयोग करने वाले अंतिम देश ने अपनी आपूर्तियों को समाप्त कर लिया है। यह है

- (A) सीसा रहित पेट्रोल (B) कोल टार
- (C) कोयला (D) सीसायुक्त पेट्रोल

English Language

In the following question, you have to select the suitable words for the homes or habitats of the noun subjects from the given choices.

- Birds or fowls are kept in a
 (A) barracks (B) den
 (C) hole (D) coop

Fill in the blank with appropriate adjective from the alternatives given below.

- He is _____ than his brother.
 (A) elder (B) oldest
 (C) older (D) eldest

Choose the Antonym of the given word.

- DEXTEROUS**
 (A) awkward (B) extravagance
 (C) discord (D) lazy

The following sentence contains grammatical error or idiomatic error in it. You have to find out that part of the sentence and choose the alphabet of that part as answer.

- He was discharged as there was no proof against his guilt.
 (A) no proof against his guilt
 (B) He was discharged
 (C) as there was
 (D) No error

95. In the following question, a sentence has been given in Direct/Indirect Speech. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in Indirect/Direct Speech.

- Nayan exclaimed sadly that he was undone.
 (A) Nayan said, "Alas ! I have been undone".
 (B) Nayan said, "Alas ! I am undone".
 (C) Nayan said, "Alas ! He was undone".
 (D) Nayan said, "Alas ! He is undone".

हिन्दी भाषा

96. पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, _____ कहते हैं।
 (A) भाव ✓
 (B) शब्द
 (C) वाक्य
 (D) इनमें से कोई नहीं



97. जो पहले न पढ़ा गया हो, उसे _____ कहते हैं।
 (A) अपठित ✓
 (B) पठित
 (C) अनादि
 (D) इनमें से कोई नहीं

98. अर्थ: + गति = अधोगति, _____ संधि का उदाहरण है।
 (A) स्वर
 (B) व्यंजन
 (C) विसर्ग ✓
 (D) इनमें से कोई नहीं
99. छोटी से छोटी घनि जिसके खण्ड न हो सकें, _____ कहलाती है।
 (A) भाषा
 (B) वर्ण ✓
 (C) खण्ड
 (D) शब्द

100. गाय _____ है।
 (A) बलबलाती
 (B) रंभाती ✓
 (C) रेकती
 (D) इनमें से कोई नहीं